


राष्ट्रभाषा-व्याकरण



राजपूताना, सेन्ट्रल इंडिया, ग्वालियर
अजमेर बोर्ड की हाईस्कूल कक्षाओं के लिए स्वीकृत



—: लेखक और प्रकाशक —

श्रो. पुरुषोत्तम जीवानन्द डबराल शास्त्री एम. ए. प्रभाकर
माधव कालेज, उज्जैन.

श्रो० ब०० ग० च०० च०हाण एम. ए
आनन्द कालेज, धार.

(सर्वाधिकार लेखकों के स्वाधीन)

पुस्तक भिल्हने का पता:—

स्वरूप ब्रदर्स
खजूरीबाजार, इन्दौर.

प्रवाहित संस्करण	}	सं० २००७ वि०	}	मूल्य ३॥
------------------	---	--------------	---	----------

विजयदशमी